

**प्रेस नोट - दिनांक 10.06.2022 थाना महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर
आज दिनांक 10-06-2022 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई- किरण का आयोजन
कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 04 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।**

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 10-06-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 05 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई । परामर्श के बाद 04 पत्रावाली का सफल निस्तारण संभव हुआ तथा 01 पत्रावली में अग्रिम तिथि दी गई । 04 परिवारो को बिखरने से बचाने में म०हे०का० सविता सिंह , महिला आरक्षी अनिशा सरोज,म०आ० बबिता सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

निस्तारित पत्रावली का विवरण :-

- 1.ललिता पत्नी सन्तकुमार साकिन सेनुआ थाना लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. प्रेमशीला पत्नी गोपाल साकिन गेगंटा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3.मंजू पत्नी रामवृक्ष साकिन लखनापार थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4.लक्ष्मी पत्नी रामनरेश साकिन शीतलपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज ।

**प्रेस नोट:दिनांक 10.06.2022 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर
यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान, पी0ए0सिस्टम
व पम्पलेट के माध्यम से यातायात जागरूकता से संबन्धित प्रचार प्रसार किया गया ।**

आज दिनांक 10-06-2022 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 यशवीर सिंह के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री अखिलेश वर्मा के कुशल निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत पी0ए0सिस्टम व पम्पलेट के माध्यम से सनई तिराहा, साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा व पावर हाउस तिराहा, बांसी कस्बा आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से संबन्धित प्रचार प्रसार किया गया तथा प्रभारी यातायात श्री अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम द्वारा बांसी रोड पर अवैध तरह से खड़े ट्रकों और अन्य वाहन सहित 125 वाहनों को चेक किया गया, वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का पालन न करने वाले 20 वाहनों से 20500-रु० शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली संख्या में भारी कमी लायी जा सके ।

अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश बनाए रखने तथा नव संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए जनपद सिद्धार्थनगर में सभी संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल के द्वारा फुट पेट्रोलिंग की गई। कस्बा डुमरियागंज में अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर श्री उमाशंकर व देवी गुलाम सिंह क्षेत्राधिकारी बांसी तथा प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज सूर्यभान सिंह भारी पुलिस बल के साथ थाना से मंदिर तिराहा बैदौला तिराहा तक पैदल गस्त की गई। सभी से शांति व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग किए जाने तथा किसी भी अप्रिय गतिविधि की सूचना तत्काल 112 नंबर पर दिए जाने का अनुरोध किया गया। सोशल मीडिया पर बिना किसी खबर की प्रशासन से पुष्टि किए ना तो कोई खबर पोस्ट करें व ना ही फॉरवर्ड करें। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाएगा।